



भिन्नों का गुणन (मिश्रित अंश)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\frac{2}{3} \times \frac{2}{3} =$$

$$1\frac{1}{3} \times \frac{4}{5} =$$

$$\frac{6}{9} \times \frac{3}{4} =$$

$$\frac{6}{7} \times \frac{5}{7} =$$

$$1\frac{1}{2} \times \frac{5}{7} =$$

$$\frac{1}{3} \times \frac{5}{9} =$$

$$\frac{2}{6} \times \frac{1}{9} =$$

$$\frac{3}{9} \times \frac{1}{4} =$$

$$\frac{4}{7} \times 1\frac{2}{3} =$$

$$1\frac{1}{3} \times \frac{5}{7} =$$



भिन्नों का गुणन (मिश्रित अंश)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$$

$$1\frac{1}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{16}{15} = 1\frac{1}{15}$$

$$\frac{6}{9} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{6}{7} \times \frac{5}{7} = \frac{30}{49}$$

$$1\frac{1}{2} \times \frac{5}{7} = \frac{15}{14} = 1\frac{1}{14}$$

$$\frac{1}{3} \times \frac{5}{9} = \frac{5}{27}$$

$$\frac{2}{6} \times \frac{1}{9} = \frac{1}{27}$$

$$\frac{3}{9} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

$$\frac{4}{7} \times 1\frac{2}{3} = \frac{20}{21}$$

$$1\frac{1}{3} \times \frac{5}{7} = \frac{20}{21}$$